

नमस्कार सर,

में प्रशांत गोहेल राजकोट गुजरात से हु। में हाल ही में एक महीने पहले दिल्ली गया था वंहा जाकर देखा तो सच में बहुत खुशी हुई। एक तो ये की में गुजरात में रहता हु और हमको आप जैसे मुख्यमंत्री १३ साल तक मिले जिजसे आज हम यहाँ हे। हम गुजरात में कही पर भी जाते हे तो हमें कुछ न कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनते देख सकते हे। वो गुजरात का कोई भी एरिया हो। लेकिन में दिल्ली में करोल बाग तथा अन्य स्थल पर घुमा जो देखने लायक था जैसे लालकिला, कृतुबमीनार, राजघाट, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट जो अभी वॉर मेमोरियल हे। लेकिन मुझे कही भी नयी इमारत बनते नहीं दिखी जो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो इससे अंदाजा होता हे की दिल्ली के लोगो को फ्री का लालच बहुत महँगा पड़ा हे। में दिल्ली इससे पहले सायद दस साल पहले आया था लेकिन मुझे सब याद आ रहा था। जबकि हमारे गुजरात में खासकर अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ौदा, में अगर कोई दस साल पहले आया हो और अभी आएगा तो उसके मुँह से तुरंत निकलेगा की सब बदल गया हे।

हम सच में बहुत भाग्यशाली हे की हमें आप जैसे मुख्यमंत्री मिले जिसने हमें फ्री लेना नहीं खुदारी से रहना और जीना सिखाया।

ये सब बाटे हुई आपके मुख्यमंत्री रहते हुए अभी में मेरा एक अनुभव लिख रहा हु। दिल्ली में जब हम चाय पिने गए सुबह तो एक लारी वाला लड़का था वो चाय बेच रहा था। हमने उसको हमारे गुजरात की तरह बोला भाई २ कटिंग चाय दो। उसने तुरंत हमको चाय दी हमने चाय पीकर पैसे दिए तो हम जानकर हैरान थे २ कटिंग चाय के मात्र १० रुपए। और उससे भी बड़ी खुशी तब हुयी की वो पैसा भी वो payTM से ले रहा था। यानि इतना बड़ा बदलाव करने के लिए सिर्फ ईमानदार सोच चाहिए।

धन्यवाद सर की आज आप हमारे प्रधानमंत्री हे।